

EN Start Here  
HI यहाँ आरंभ करें




© 2015 Seiko Epson Corporation.  
All rights reserved.  
Printed in XXXXXX

**Read This First**  
This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**पहले इसे पढ़ें**  
इस प्रिंटर में इंक को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। इंक टैंक में इंक भरते समय या रीफिल करते समय इंक फैल सकता है। यदि इंक आपके कपड़ों या समान पर लग जाता है, तो यह शायद नहीं छूट सकता है।

**Important; must be observed to avoid damage to your equipment.**  
महत्वपूर्ण; अपने उपकरण को क्षति से बचाने के लिए इसका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए।

**1**



Contents may vary by location.


सामग्रियाँ स्थान के अनुसार बदल सकती हैं।

Do not open the ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability. Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are guaranteed, and they can be used safely.

जब तक आप इंक टैंक भरने के लिए तैयार न हो जाएँ इंक बोतल पैकेज न खोलें। इंक के बोतल की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए उसे वैक्यूम पैक किया जाता है।  
यद्यपि कुछ इंक के बोतल में खरोच लगे हुए होते हैं, तो भी इंक की गुणवत्ता और मात्रा की गारंटी है तथा उनका उपयोग सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

When the message of seeing the setup manual is displayed, press **OK** for **3 seconds**.


जब सेटअप मैनुअल देखने वाला संदेश प्रदर्शित हो, तो **OK** को **3 सेकंड** तक दबाएँ।




Confirm that the tanks are filled with ink, and then press **⏏** to start charging ink. Charging ink takes about 20 minutes.

पुष्टि करें कि टैंक इंक से भरा हुआ है और फिर इंक चार्ज आरंभ करने के लिए **⏏** दबाएँ। इंक चार्ज होने में लगभग 20 मिनट लगता है।

**14** Load paper in the paper cassette with the printable side facing down.  
प्रिंट किए जाने वाले भाग को नीचे की तरफ रखकर पेपर कैसट में पेपर लोड करें।



**2**




Do not connect a USB cable unless instructed to do so.  
USB केबल को कनेक्ट न करें जब तक ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

**Windows**  
Insert the CD and follow the on-screen instructions to finish the setup process.  
CD डालें और सेटअप प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करें।

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.  
यदि फ़ायरवॉल अलर्ट प्रदर्शित होता है, तो Epson एप्लिकेशन के लिए पहुँच की अनुमति दें।

**Windows (No CD/DVD drive)**  
**Mac OS X**  
**iOS / Android**  
**No PC**  
Proceed to the next step (Section 3).  
आगे बढ़कर अगले चरण (भाग 3) पर जाएँ।

**3**



Remove all protective materials.  
सभी सुरक्षात्मक सामग्रियाँ निकालें।


Never place the printer vertically even when storing or transporting it; otherwise, ink may leak.  
प्रिंटर को कभी भी लंबवत रूप से न रखें, यहाँ तक की इसे संग्रहीत या स्थानांतरित करते समय भी नहीं; अन्यथा, इंक का रिसाव हो सकता है।

**2**


**For Australia and New Zealand Users**  
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उपयोगकर्ताओं के लिए  
Connect a phone cable. See the User's Guide (PDF) for more details.  
एक फ़ोन केबल कनेक्ट करें। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड (PDF) देखें।

**Except for Australia and New Zealand Users**  
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उपयोगकर्ताओं के सिवाय  
Connect a phone cable to a telephone wall jack and to the LINE port on your product. See the User's Guide (PDF) for more details.  
फ़ोन केबल को टेलीफोन वॉल जैक से और अपने उत्पाद के LINE पोर्ट से कनेक्ट करें। अधिक विवरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड (PDF) देखें।

**3**




Use the ink bottles that came with your printer. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.  
अपने प्रिंटर के साथ मिले इंक के बोतल का उपयोग करें।  
Epson नकली इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता है। नकली इंक का उपयोग क्षति पहुँचा सकता है जो कि Epson की वारंटियों में शामिल नहीं है।




Snap off, remove, and then close tightly.  
खोलें, निकालें और फिर कस कर बंद करें।

**5**



Fill each tank with the correct ink color. Use all of the ink in the bottle.  
प्रत्येक टैंक को सही रंग वाले इंक से भरें। बोतल के पूरे इंक का उपयोग करें।




Repeat steps 5 to 7 for each ink bottle.  
प्रत्येक इंक के बोतल के लिए 5 से 7 तक के चरणों को दोहराएँ।



Connect and plug in.  
कनेक्ट करें और प्लग से लगाएँ।



Turn on.  
चालू करें।



Select a language, country and time.  
भाषा, देश और समय चुनें।

**15** Paper Setup  
Select paper size and type.  
पेपर का आकार और पेपर का प्रकार सेट करें।

**16** Fax Settings  
Start setting up?  
Connect the phone line.  
Press **▲** to set up the fax, or press **▼** to set it up later.


**17** Visit the website to start the setup process, install software or applications, and make network settings.  
सेटअप प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए वेबसाइट पर जाएँ, सॉफ्टवेयर या एप्लिकेशन इंस्टॉल करें तथा नेटवर्क सेटिंग तैयार करें।

**Windows (No CD/DVD drive)**  
**Mac OS X**  
<http://epson.sn>

**iOS / Android**  
  
<http://epson.sn>

**Epson Connect**  
<https://www.epsonconnect.com/>  
Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.  
अपने मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके, आप दुनिया के किसी भी स्थान से अपने Epson Connect संगत प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएँ।

**Guide to Control Panel**  
नियंत्रण पैनल के लिए गाइड



- Turns the printer on or off.  
प्रिंटर को चालू या बंद करता है।
- Displays the home screen.  
होम स्क्रीन को प्रदर्शित करता है।
- Enter the last dialed number or enter a pause when entering a fax number.  
फैक्स नंबर दर्ज करते समय अंतिम बार डायल हुआ नंबर या एक विराम दर्ज करें।
- Stops the current operation.  
वर्तमान ऑपरेशन को रोक देता है।
- Press **◀**, **▶**, and **▼** to select menus. Press **OK** to confirm your selection or run the selected feature.  
मेनू का चयन करने के लिए **◀**, **▶**, और **▼** दबाएँ। अपने चयन की पुष्टि करने या चयनित विशेषता का संचालन करने के लिए **OK** दबाएँ।
- Returns to the previous screen.  
पिछले स्क्रीन पर वापस लौटता है।
- Enters numbers, characters, and symbols.  
नंबर, वर्ण और चिह्न दर्ज करता है।
- Opens the contacts list.  
संपर्क सूची खोलता है।
- Starts printing, copying, scanning, and faxing.  
प्रिंट, कॉपी, स्कैन और फैक्स करना आरंभ करता है।

**Copying**  
कॉपी करना

- Open the document cover.  
दस्तावेज का कवर खोलें।
- Place the original, and then close the cover.  
मूल को रखें, और फिर कवर बंद कर दें।
- Select **Copy**.  
प्रतिलिपि बनाएँ चुनें।
- Press the **▲** and **▼** buttons to enter the number of copies.  
प्रतियों की संख्या दर्ज करने के लिए **▲** और **▼** बटन दबाएँ।
- Press the **OK** button. Select **Layout**, and then select the appropriate layout.  
**OK** बटन दबाएँ। **लेआउट** का चयन करके उपयुक्त लेआउट चुनें।
- Press the **▼** button, and then make other settings as necessary.  
**▼** बटन दबाएँ, और फिर आवश्यकतानुसार अन्य सेटिंग तैयार करें।
- Press **⏏** to start copying.  
कॉपी करना आरंभ करने के लिए **⏏** दबाएँ।

## Print Quality Help

### प्रिंट गुणवत्ता सहायता


- If you see missing segments or broken lines in your printouts, print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. Select **Setup > Maintenance > Print Head Nozzle Check**. If all lines are printed as shown in (a), the nozzles are not clogged. Select **Finish**. If you notice any missing segments or broken lines as shown in (b), go to step 2.

यदि आपको अपने प्रिंटआउट में खंड गायब मिले या रेखाएँ टूटी मिलें, तो प्रिंट नोज़ल जाँच पैटर्न को यह जाँच करने के लिए प्रिंट करें कि प्रिंट हेड नोज़ल बंद तो नहीं है।

**सेटअप > रखरखाव > प्रिंट हेड नोज़ल जाँच** चुनें।

यदि सभी रेखाएँ (a) में प्रदर्शित तरीके से प्रिंट होती हैं, तो नोज़ल बंद नहीं है। समाप्त चुनें।

यदि आपको (b) में दिखाए अनुसार कोई भी छूटे हुए खंड या टूटी हुई रेखाएँ दिखें, तो चरण 2 पर जाएँ।



- Select **Clean the print head** and follow the on-screen instructions.

**प्रिंट हेड साफ़ करें** चुनें और स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करें।

The cleaning uses some ink from all tanks, so run the cleaning only if quality declines on your prints.





सफ़ाई में सभी टैंक से थोड़े इंक का उपयोग होता है, इसलिए अपने प्रिंट की गुणवत्ता कम होने पर ही सफ़ाई का संचालन करें।

## Clearing Paper Jam

### पेपर जाम हटाना


Remove all of the paper inside, including any torn pieces, and then press the button displayed on the LCD screen.

फटे हुए पेपर समेत, अंदर के सभी पेपर निकालें और फिर LCD स्क्रीन पर प्रदर्शित बटन को दबाएँ।



Do not touch the parts shown in the illustration below. Doing so may cause a malfunction.

नीचे चित्र में दिखाए गए भागों को न छुएँ। ऐसा करने से खराबी हो सकती है।



## Refilling Ink

### इंक रिफिल करना

- Follow the steps below to refill ink.

इंक रिफिल करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

Visually check ink levels in the actual ink tanks. Continued use of the printer when the ink is expended could damage the printer. Epson recommends filling the ink tank to the upper line when the printer is not operating to reset the ink level.

वास्तविक इंक टैंक में इंक के स्तर की जाँच स्पष्ट रूप से करें।

इंक के समाप्त हो जाने पर भी प्रिंटर का उपयोग जारी रखने पर प्रिंटर खराब हो सकता है। Epson अनुशंसा की जाती है कि जब प्रिंटर ऑपरेट न हो रहा हो तो इंक टैंक को ऊपरी रेखा तक भर कर इंक स्तर को रीसेट करें।

- Select **Setup > Maintenance > Reset Ink Levels**.

**सेटअप > रखरखाव > स्थायी के स्तरों को रीसेट करें** चुनें।

- Press **OK**.


दबाएँ।

- Refer to steps 2 to 4 in section 3 of the front page to refill the tanks to the upper line.

टैंक की ऊपरी रेखा तक इंक रिफिल करने के लिए अनुभाग 3 के 2 से 4 तक के चरणों को देखें।

If any ink remains in the ink bottle after filling the ink tank up to the upper line, install the cap securely and store the ink bottle upright for later use.

यदि इंक टैंक को ऊपरी रेखा तक भरने के बाद भी बोतल में कुछ इंक बचा रह जाता है, तो ढक्कन को ठीक से लगा दें और इंक बोतल को सीधा खड़ा करके संग्रहित कर दें ताकि बाद में उपयोग हो सके।



- Press the **OK** button.

**OK** बटन दबाएँ।

- Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels.


इंक के स्तर को रीसेट करने के लिए LCD स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करें।

You can reset the ink levels even if you did not fill the ink to the upper line. Note that doing so may cause a difference between the approximate ink levels and the actual ink levels.

यदि आपने इंक को ऊपरी रेखा तक नहीं भरा है तो भी आप इंक के स्तर को रीसेट कर सकते हैं। ध्यान दें कि ऐसा नहीं करने से अनुमानित इंक स्तर और वास्तविक इंक स्तर के बीच अंतर हो सकता है।


## Transporting

### किसी दूसरी जगह ले जाना



Secure print head with a tape.

प्रिंट हेड को टेप से सुरक्षित करें।



Close securely.

सुरक्षित रूप से बंद करें।


- Pack the printer in its box, using the protective materials.

सुरक्षात्मक सामग्रियों का उपयोग करके प्रिंटर को उसके बॉक्स में पैक करें।

Keep the printer level as you transport it. Otherwise, ink may leak. As you transport the ink bottle, be sure to keep it upright when tightening the cap, and take measures to prevent ink from leaking.

प्रिंटर को ले जाते समय उसका स्तर बनाएँ रखें। अन्यथा, इंक का रिसाव हो सकता है।

जब आप इंक के बोतल को किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो ढक्कन कसते समय इसे सीधा रखना सुनिश्चित करें और इंक को रिसने से बचाने का उपाय करें।



After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.

इसे स्थानांतरित करने के बाद, प्रिंट हेड को सुरक्षित रखने वाला टेप निकाल दें। यदि आपको प्रिंट की गुणवत्ता में कोई कमी दिखाई देती है, तो क्लिनिंग साइकल चलाएँ या प्रिंट हेड को संरेखित करें।

## Safety Instructions

### सुरक्षा निर्देश

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.

केवल प्रिंटर के साथ प्राप्त हुए पावर कॉर्ड का ही उपयोग करें। किसी अन्य कॉर्ड के उपयोग के फलस्वरूप आग लग सकती है या बिजली का झटका लग सकता है। किसी और उपकरण के साथ कॉर्ड का उपयोग न करें।

Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.

सुनिश्चित करें कि आपका AC पावर कॉर्ड प्रासंगिक स्थानीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।

Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.

अपने दस्तावेज़ में विशेष रूप से वर्णित तरीके के अलावा, अपने प्रिंटर की सर्विस खुद करने का प्रयास न करें।

Do not let the power cord become damaged or frayed.

पावर कॉर्ड को क्षतिग्रस्त न होने दें या घिसने न दें।

Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.

प्रिंटर को वॉल आउटलेट के समीप रखें ताकि पावर कॉर्ड को आसानी से निकाला जा सके।

Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.

उत्पाद को बाहर, अत्यधिक गंदगी या धूल, पानी, गर्मी के स्रोतों के निकट, या झटका लगने, कंपन होने, उच्च तापमान या आर्द्रता वाले स्थानों में न रखें या संग्रहित करें।

Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.

उत्पाद पर द्रव न गिराने और गीले हाथों से उत्पाद को न पकड़ने का ध्यान रखें।

Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. Radio waves from this product may adversely affect the operation of cardiac pacemakers.

इस उत्पाद को कार्डियक पेसमेकर से कम से कम 22 सेमी की दूरी पर रखें। इस उत्पाद की रेडियो तरंगें कार्डियक पेसमेकर के संचालन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं।

If the LCD screen is damaged, contact your dealer. If the liquid crystal solution gets on your hands, wash them thoroughly with soap and water. If the liquid crystal solution gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems remain after a thorough flushing, see a doctor immediately.

यदि LCD स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो, तो अपने डीलर से संपर्क करें। यदि द्रव क्रिस्टल घोल आपके हाथों पर लग जाता है, तो उन्हें साबुन और पानी के द्वारा अच्छी तरह से साफ़ करें। यदि द्रव क्रिस्टल घोल आपकी आँखों में चला जाता है, तो उन्हें तुरंत पानी से साफ़ करें। यदि अच्छी तरह से धोने के बाद भी कष्ट होता है या देखने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलें।

Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.

इंक बोतल और इंक टैंक यूनिट को बच्चों की पहुँच से दूर रखें और इंक को न पीएँ।

Do not tilt or shake an ink bottle after removing its seal; this can cause leakage.

इंक बोतल के सील को खोलने के बाद उसे न झुकाएँ या हिलाएँ; इससे रिसाव हो सकता है।

Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.

बोतल को सीधा रखना सुनिश्चित करें और उसे झटकों या तापमान परिवर्तनों से बचा कर रखें।

If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor right away.

यदि त्वचा पर इंक लग जाता है, तो उस भाग को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ़ करें। यदि आपकी आँखों में इंक चला जाता है, तो उन्हें तुरंत पानी से धोएँ। यदि अच्छी तरह से धोने के बाद भी कष्ट जारी रहता है या देखने में समस्या होती है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। यदि इंक आपके मुँह में चला जाता है, तो डॉक्टर से उसी समय मिलें।

Avoid using a telephone during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

बिजली के तूफान के समय टेलीफोन के उपयोग से बचें। बिजली गिरने से विद्युत का झटका लगने का खतरा रहता है।

Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

गैस के रिसाव की सूचना देने के लिए रिसाव के समीप टेलीफोन का उपयोग न करें।

Always keep this guide handy.

इस गाइड को हमेशा पास रखें।

## Ink Bottles

### इंक की बोतल

| BK  | C   | M   | Y   |
|-----|-----|-----|-----|
| 774 | 664 | 664 | 664 |

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.

निर्दिष्ट इंक के बजाय अन्य असली Epson इंक का उपयोग करने के फलस्वरूप क्षति हो सकती है जो कि Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

## Questions?

You can open the [User's Guide \(PDF\)](#) and [Network Guide \(PDF\)](#) from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website.

आप शॉर्टकट आइकन का उपयोग करके उपयोगकर्ता गाइड (PDF) और नेटवर्क गाइड (PDF) खोल सकते हैं या निम्नलिखित वेबसाइट से नवीनतम संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं।

<http://support.epson.net/>

## For New Zealand Users

### General warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with the minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other Telecom customers.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android™ is a trademark of Google Inc.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

